

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2013—माघ 5, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 17966-जनगणना-2011-एनपीआर-अधिसूचना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :-

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसील बाबई	तहसीलदार, बाबई	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बाबई.	तहसील बाबई के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील सोहागपुर	तहसीलदार, सोहागपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सोहागपुर.	तहसील सोहागपुर के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील पिपरिया	तहसीलदार, पिपरिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पिपरिया.	तहसील पिपरिया के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील बनखेड़ी	तहसीलदार, बनखेड़ी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बनखेड़ी.	तहसील बनखेड़ी के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	तहसील डोलरिया	तहसीलदार, डोलरिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील डोलरिया.	तहसील डोलरिया के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील होशंगाबाद	तहसीलदार, होशंगाबाद	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील होशंगाबाद.	तहसील होशंगाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील इटारसी	तहसीलदार, इटारसी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील इटारसी.	तहसील इटारसी के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील सिवनीमालवा	तहसीलदार, इटारसी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सिवनीमालवा.	तहसील सिवनीमालवा के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	नगरपालिका, होशंगाबाद	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, होशंगाबाद.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, होशंगाबाद.	नगरपालिका होशंगाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगरपालिका, पिपरिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, पिपरिया.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पिपरिया.	नगरपालिका पिपरिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगरपालिका, इटारसी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, इटारसी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, इटारसी.	नगरपालिका इटारसी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगरपालिका, सिवनीमालवा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, सिवनीमालवा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सिवनीमालवा.	नगरपालिका सिवनीमालवा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	छावनी बोर्ड, पचमढ़ी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी बोर्ड, पचमढ़ी.	उप जिला रजिस्ट्रार, छावनी बोर्ड, पचमढ़ी.	छावनी बोर्ड, पचमढ़ी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर पंचायत, बाबई	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बाबई.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बाबई.	नगर पंचायत बाबई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर पंचायत, सोहागपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सोहागपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सोहागपुर.	नगर पंचायत सोहागपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	केन्द्रीय प्रूफ संस्थान (विशेष क्षेत्र).	मेजर जनरल, विशेष चार्ज जनगणना अधिकारी, सी.पी.ई., इटारसी.	उप जिला रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रूफ संस्थान (सीपीई), इटारसी.	केन्द्रीय प्रूफ संस्थान के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
17	आर्डिनेन्स फैक्ट्री, इटारसी (विशेष क्षेत्र).	असिस्टेन्ट वर्क्स मैनेजर, आर्डिनेन्स फैक्ट्री, इटारसी.	उप जिला रजिस्ट्रार, आर्डिनेन्स फैक्ट्री, इटारसी.	आर्डिनेन्स फैक्ट्री इटारसी अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
18	सैन्य क्षेत्र, पचमढ़ी (विशेष क्षेत्र).	ब्रिगेडियर, स्टेशन कमाण्डर, विशेष चार्ज जनगणना अधिकारी, सैन्य क्षेत्र, पचमढ़ी.	उप जिला रजिस्ट्रार, सैन्य क्षेत्र, पचमढ़ी.	सैन्य क्षेत्र, पचमढ़ी अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
20	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	साविधिक नगरों/(नगर निगम/नगर पालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पढ़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : होशंगाबाद

दिनांक :

राहुल जैन, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव/ अति. सचिव
एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. क्ष-एनपीआर-सीआर-जनगणना-2011.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
7	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगर पालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पढ़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : सीहोर

दिनांक : 5 जनवरी 2013

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्र. 70-2013-संयोसांका./जनगणना-2011-एन.पी.आर.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पद नाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्र. संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नगर निगम, जबलपुर, जोन 1 से 13 तक.	अपर आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, जबलपुर नगर निगम.	नगर निगम, जबलपुर के जोन 1 से 13 के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
2	तहसील जबलपुर	तहसीलदार, जबलपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जबलपुर.	तहसील जबलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
3	तहसील पनागर	तहसीलदार, पनागर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पनागर.	तहसील पनागर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
4	तहसील पाटन	तहसीलदार, पाटन	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पाटन.	तहसील पाटन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
5	तहसील शहपुरा	तहसीलदार, शहपुरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शहपुरा.	तहसील शहपुरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
6	तहसील मझौली	तहसीलदार, मझौली	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मझौली.	तहसील मझौली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
7	तहसील सिहोरा	तहसीलदार, सिहोरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सिहोरा.	तहसील सिहोरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
8	तहसील कुंडम	तहसीलदार, कुंडम	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कुंडम.	तहसील कुंडम के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
9	नगरपालिका परिषद्, पनागर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पनागर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका परिषद्, पनागर.	नगरपालिका परिषद् पनागर के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगरपालिका परिषद्, सिहोरा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिहोरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका परिषद्, सिहोरा.	नगरपालिका परिषद् सिहोरा के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	छावनी बोर्ड, जबलपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी बोर्ड, जबलपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, छावनी बोर्ड, जबलपुर.	छावनी बोर्ड जबलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	तोपगाड़ी फैक्ट्री	कार्य प्रबंधक/प्रशासन जी.सी.एफ., जबलपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, तोपगाड़ी फैक्ट्री, जबलपुर.	तोपगाड़ी फैक्ट्री, जबलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	वाहन निर्माणी	कार्य प्रबंधक/प्रशासन वाहन निर्माणी, जबलपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, वाहन निर्माणी, जबलपुर.	वाहन निर्माणी, जबलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	आयुध निर्माणी, खम्हरिया.	हिंदी अधिकारी/प्रशासन-3 आयुध निर्माणी खम्हरिया, जबलपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, आयुध निर्माणी खम्हरिया, जबलपुर.	आयुध निर्माणी खम्हरिया, जबलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर पंचायत, बरेला	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बरेला.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बरेला.	नगर पंचायत, बरेला के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	नगर पंचायत, भेड़ाघाट	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, भेड़ाघाट.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, भेड़ाघाट.	नगर पंचायत, भेड़ाघाट के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
17	नगर पंचायत, शहपुरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, शहपुरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, शहपुरा.	नगर पंचायत, शहपुरा के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
18	नगर पंचायत, पाटन	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पाटन.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, पाटन.	नगर पंचायत, पाटन के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
19	नगर पंचायत, कंटगी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कंटगी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कंटगी.	नगर पंचायत, कंटगी के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
20	नगर पंचायत, मझौली	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मझौली.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, मझौली.	नगर पंचायत, मझौली के अन्तर्गत पड़ने वाला संपूर्ण नगरीय क्षेत्र.
21	संबंधित ग्राम	संबंधित पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
22	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगर पालिका/ छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 8 जनवरी 2013

गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

Jabalpur, the 8th January 2013

No. 70-2013-Div. P&S.O-Census-2011-N.P.R.—In exercise of the powers conferred *vide*, GAD, Order No. F. 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February, 2012 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 17th February, 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in Col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of the Schedule:—

Sl. No. (1)	Administrative Unit (2)	Designation (3)	To be appointed as (4)	Jurisdiction (5)
1	Jabalpur, Municipal Corporation, Zone 1 to Zone13.	Additional Commissioner, Municipal Corporation, Jabalpur.	Sub-District Registrar, Jabalpur Municipal Corporation.	Entire Municipal urban area in respective zone of 1 to 13 Municipal Corporation.
2	Tehsil Jabalpur	Tehsildar, Jabalpur	Sub-District Registrar, Tehsil Jabalpur.	Entire Tehsil Jabalpur (excluding urban areas).
3	Tehsil Panagar	Tehsildar, Panagar	Sub-District Registrar, Tehsil Panagar.	Entire Tehsil Panagar (excluding urban areas).
4	Tehsil Patan	Tehsildar, Patan	Sub-District Registrar, Tehsil Patan.	Entire Tehsil Patan (excluding urban areas).
5	Tehsil Shahpura	Tehsildar, Shahpura	Sub-District Registrar, Tehsil Shahpura.	Entire Tehsil Shahpura (excluding urban areas).
6	Tehsil Majholi	Tehsildar, Majholi	Sub-District Registrar, Tehsil Majholi.	Entire Tehsil Majholi (excluding urban areas).
7	Tehsil Sihora	Tehsildar, Sihora	Sub-District Registrar, Tehsil Sihora.	Entire Tehsil Sihora (excluding urban areas).
8	Tehsil Kundam	Tehsildar, Kundam	Sub-District Registrar, Tehsil Kundam.	Entire Tehsil Kundam (excluding urban areas).
9	Municipal Council, Panagar.	Chief Municipal Officer, Panagar.	Sub-District Registrar, Municipality Council, Panagar.	Entire Urban area of Municipality Council, Panagar.
10	Municipal Council, Sihora.	Chief Municipal Officer, Sihora.	Sub-District Registrar, Municipality Council, Sihora.	Entire Urban area of Municipality Council, Sihora.
11	Cantonment Board, Jabalpur.	Chief Executive Officer, Cantonment Board, Jabalpur.	Sub-District Registrar, Cantonment Board, Jabalpur.	Entire Urban area of Cantonment Board, Jabalpur.
12	Gun Carriage Factory, Jabalpur.	Works Manager, Administration, GCF, Jabalpur.	Sub-District Registrar, Gun Carriage Factory, Jabalpur.	Entire Urban area of Gun Carriage Factory, Jabalpur.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Vehicle Factory, Jabalpur.	Hindi Officer Administration-3, Vehicle Factory, Jabalpur.	Sub-District Registrar, Vehicle Factory, Jabalpur.	Entire Urban area of Vehicle Factory, Jabalpur.
14	Ordinance Factory, Khamharia, Jabalpur.	Works Manager Administration Ordinance Factory, Khamharia, Jabalpur.	Sub-District Registrar, Ordinance Factory, Khamharia, Jabalpur.	Entire Urban area of Ordinance Factory, Khamharia, Jabalpur.
15	Nagar Panchayat, Barela.	Chief Municipal Officer, Barela.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Barela.	Entire urban area of Nagar Panchayat, Barela.
16	Nagar Panchayat, Bheraghat.	Chief Municipal Officer, Bheraghat.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Bheraghat.	Entire urban area of Nagar Panchayat, Bheraghat.
17	Nagar Panchayat, Shahpura	Chief Municipal Officer, Shahpura.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Shahpura.	Entire urban area of Nagar Panchayat, Shahpura.
18	Nagar Panchayat, Patan.	Chief Municipal Officer, Patan	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Patan.	Entire urban area of Nagar Panchayat, Patan.
19	Nagar Panchayat, Katangi.	Chief Municipal Officer, Katangi.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Katangi.	Entire urban area of Nagar Panchayat, Katangi.
20	Nagar Panchayat, Majholi.	Chief Municipal Officer, Majholi.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Majholi.	Entire urban area of Nagar Panchayat, Majholi.
21	Respective Village(s).	Concerned Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/ Census Town/Out Growth.
22	Respective Ward(s)	Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector.	Local Registrar	Entire urban area in respective wards of statutory Towns (Municipal Corporation/ Municipal Council / Cantonment Board/ Nagar Panchayat).

The Sub-Districts Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place : Jabalpur

Dated : 8th January 2013

GULSHAN BAMRA, Collector and
District Registrar (NPR).